

परिदृश्य के सक्रियण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्व्यू)

संस्करण 2.2

दिसंबर 2025

अस्वीकरण:

“यह दस्तावेज़/एफएक्व्यू सदस्यों की समझ में आसानी के लिए उपरोक्त विषय से संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ दी गई जानकारी और/या विषय-वस्तु (सामूहिक रूप से 'सूचना') केवल सामान्य जानकारी है और एनएसई ने समय-समय पर इस संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि जानकारी पर्याप्त और विश्वसनीय है, एनएसई द्वारा इसकी सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और एनएसई, इसके सहयोगी और सहायक कंपनियाँ इस जानकारी पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान, जिसमें बिना किसी सीमा के लाभ की हानि भी शामिल है, के लिए किसी भी प्रकार का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं परिश्रम करें और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल इस दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ऐसा कोई भी भरोसा पाठक के अपने जोखिम पर होगा। यहाँ कही गई कोई भी बात एनएसई को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगी। पाठकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अनुवाद सेवाओं का प्रयोग करते हुए एफएक्व्यू की विषय-वस्तु का (हिंदी) भाषा में अनुवाद किया गया है। जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि अनुवाद सटीक रहें, अनुवाद प्रक्रिया की तकनीकी सीमाओं के कारण अनुवाद में अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पाठक मूल संस्करण (अंग्रेजी) के साथ अनुवादित सामग्री की सटीकता को सत्यापित कर सकते हैं। एफएक्व्यू में विसंगतियों या मतभेदों या अनुवाद से उत्पन्न होने वाले अनुपालन या प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जोकि उपयुक्त सर्कुलर के अधीन होंगे।”

पृष्ठभूमि:

विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले सदस्यों तक पहुंच प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज लीड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ट्रेडिंग सदस्यों को कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने के लिए उपलब्ध श्रेणियों में से एक परिदृश्य चुनना आवश्यक है।

1. लीड लाइन क्या है?

लीड लाइन स्थलीय आधारित कनेक्टिविटी है जो सदस्यों को प्वाइंट ऑफ प्रेजेस (पीओपी) के माध्यम से एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम से जोड़ती है।

2. लीड लाइन में कनेक्टिविटी की पेशकश क्या है?

एक्सचेंज कनेक्टिविटी की पेशकश नीचे दिए गए पथ पर उपलब्ध है: <https://nseindia.com> > ट्रेड > प्लेटफॉर्म और सेवाएं > कनेक्टिविटी और उपयोगकर्ता आईडी > "एनएसई में कनेक्टिविटी विकल्पों के बारे में और पढ़ें"।

3. कनेक्टिविटी के लिए शुल्क क्या हैं?

सदस्य एक्सचेंज लगाए गए शुल्क के लिए वेबसाइट पर नीचे दिए गए पथ का उल्लेख कर सकते हैं:

<https://nseindia.com> > ट्रेड > प्लेटफॉर्म और सेवाएं > कनेक्टिविटी और उपयोगकर्ता आईडी > कनेक्टिविटी लागत (नॉन-कोलो)

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य शुल्कों की जांच करने के लिए नेटवर्क इंटीग्रेटर (एनआई) यानी सिफी से जुड़ें।

4. सेवा प्रदाताओं के विभिन्न प्रकार और उनके शुल्क कौन से हैं?

वायर्ड और वायरलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत पीओपी आधारित लीड लाइन कनेक्टिविटी के लिए सेवा प्रदाता नीचे दिए गए होंगे:

- टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टीसीएल)।
- भारती एयरटेल लिमिटेड।
- एमटीएनएल/बीएसएनएल।
- सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
- तिकोना इन्फिनेट प्राइवेट लिमिटेड। *
- माइक्रोस्कैन इन्फोकॉमटेक प्राइवेट लिमिटेड। *

* तिकोना और माइक्रोस्कैन केवल सेल्फ सर्विस मोड के लिए हैं।

सदस्य सेवा प्रदाता से संबंधित शुल्कों की जानकारी के लिए अपनी ईमेल आईडी nse.servicedesk@sifycorp.com पर एनआई से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे अनुरोध है कि वे 29 अप्रैल, 2025 के परिपत्र NSE/MSD/67754 और एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र को देखें।

5. पीओपी क्या है और सदस्य पीओपी स्थानों की सूची कहां पा सकते हैं?

POP उपस्थिति का बिंदु है, जिसे एक्सचेंज ट्रेडिंग सर्वर से सदस्य कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर एक्सचेंज द्वारा स्थापित किया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे 29 अप्रैल, 2025 के परिपत्र NSE/MSD/67754 और एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र को विभिन्न पीओपी स्थानों की सूची के लिए देखें।

6. पीओपी आधारित लीड लाइन (एलएल) कनेक्टिविटी के प्रकार क्या हैं?

पीओपी आधारित लीड लाइन (एलएल) कनेक्टिविटी दो प्रकार की होती है।

- प्रबंधित सेवा मोड
- स्वयं सेवा मोड

7. प्रबंधित सेवा मोड और स्वयं-सेवा मोड के बीच क्या अंतर है?

- **प्रबंधित सेवा (एमएस)** - प्रबंधित सेवा मोड के तहत अंतिम मील लीज लाइनों का स्वामित्व और खरीद एनएसई द्वारा की जाएगी। लीज लाइन और राउटर का प्रबंधन एनआई द्वारा किया जाएगा।
- **स्वयं सेवा (एसएस)** - स्व-सेवा मोड के तहत अंतिम मील लीज लाइनों का स्वामित्व होगा और सदस्य द्वारा खरीदा गया। लीज लाइन और राउटर का प्रबंधन सदस्य द्वारा किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे 29 अप्रैल, 2025 के परिपत्र NSE/MSD/67754 और प्रबंधित सेवा मोड और स्वयं-सेवा मोड के विस्तृत विवरण के संबंध में एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र का संदर्भ लें।

8. स्वयं-सेवा मोड के मामले में राउटर की विशिष्टता क्या है?

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक्सचेंज द्वारा जारी परिपत्र संदर्भ संख्या 2 के अनुलग्नक 3 को देखें। **NSE/MSD/67754** राउटर विनिर्देश के लिए स्वयं सेवा मोड के तहत लीड लाइन अनुप्रयोग के लिए।

9. कनेक्टिविटी स्थापना के लिए किस प्रकार के कार्यालयों की अनुमति है?

कनेक्टिविटी स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यालय नीचे दिए गए हैं:

- ट्रेडिंग सदस्य का शाखा कार्यालय
- ट्रेडिंग सदस्य का कॉर्पोरेट कार्यालय
- ट्रेडिंग सदस्य का पंजीकृत कार्यालय
- अधिकृत व्यक्ति का ट्रेडिंग सदस्य कार्यालय
- भारत में थर्ड पार्टी डेटा सेंटर

10. सदस्य एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करते समय सदस्य नीचे दिए गए पथ का उल्लेख कर सकते हैं।
ईएनआईटी पर पथ: **ईएनआईटी > सदस्यता > टीसीपी आईपी परिदृश्य > सक्रियण**

11. थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करते समय कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

सदस्य नीचे दी गई तालिका का उल्लेख कर सकते हैं:

क्रम संख्या।	उदाहरण	दस्तावेज की आवश्यकता है
1	तीसरे पक्ष के डेटा सेंटर पर 1 कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने वाले सदस्य	सदस्य की ओर से एक वचन।
2	सदस्य एक ही तृतीय-पक्ष डेटा केंद्र पर अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए आवेदन कर रहे हैं	किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है
3	किसी अन्य/नए तीसरे पक्ष के डेटा सेंटर पर अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने वाले सदस्य	किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है

नोट - सदस्यों को उपक्रम की हार्डकॉपी मुंबई बीकेसी में अपने प्रधान कार्यालय में एक्सचेंज को भेजना होगा।

12. सदस्य एक्सचेंज को सबमिट किए जाने वाले तृतीय-पक्ष डेटा सेंटर दस्तावेजों का प्रारूप कहां पा सकते हैं?

सदस्य प्रारूप के लिए नीचे दिए गए लिंक का उल्लेख कर सकते हैं।

<https://www.nseindia.com/trade/platform-services-application-formats>

13. कनेक्टिविटी के लिए अनुरोध कैसे संसाधित किया जाएगा?

सदस्यों से अनुरोध है कि वे 29 अप्रैल, 2025 के परिपत्र NSE/MSD/67754 के परिपत्र खंड II और एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र का संदर्भ लें।

14. सदस्य को परिदृश्य सक्रियण अनुरोध की स्थिति कहां मिलेगी?

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईएनआईटी पर अनुरोध स्थिति रिपोर्ट देखें।

पथ: ईएनआईटी - नया - ट्रेड > सदस्यता > टीसीपी आईपी परिदृश्य > अनुरोध स्थिति रिपोर्ट।

15. परिदृश्य सक्रियण अनुरोध की स्थिति अद्यतन के लिए सदस्य किससे संपर्क कर सकता है?

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल आईडी पर एनआई - सिफी से संपर्क करें nse.servicedesk@sifycorp.com उनके अनुरोध की स्थिति अपडेट की जांच करें। सदस्य एक्सचेंज परिपत्र संख्या NSE/MSD/67754 के 'अनुलग्नक 1' में प्रदान किए गए एस्केलेशन मैट्रिक्स का भी उल्लेख कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में जारी किए गए किसी भी नवीनतम परिपत्र का भी उल्लेख करें।

16. माननीय सदस्य ने स्व-सेवा मोड के अंतर्गत कनेक्टिविटी को सक्रिय करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। उसे एक्सचेंज से एनओसी कब प्राप्त होगी?

माननीय सदस्य ईएनआईटी में अनुरोध प्रस्तुत करते समय उनके द्वारा उल्लिखित ईमेल आईडी पर एनओसी प्राप्त करेंगे। एक कार्य दिवस पर दोपहर 3 बजे तक जमा किए गए अनुरोध पर उसी दिन कार्रवाई की जाएगी और बाद में, ईओडी द्वारा एनओसी प्रदान की जाएगी।